

NAME → KRITI

PAPER VI → हिंदी निबंध

DATE → 15/2/2021

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(3) भारत और कोविड -19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विश्व भर में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, टियेरीमा नागासाकी में हुर परमाणु आक्रमण से लेकर सुनामी, भूकंप, बाढ़ आदि रूप में अनेक प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाएँ विगत दशकों में देखी जा चुकी हैं।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परंतु साल 2020 में भारत कोविड 19 नामक अदृशपूर्ण विकराल समस्या ने जो सिर्फ पूरे भारत बल्कि विश्व भर को अपने आवेष्ट में ले लिया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कोविड 19 एक तरह की विषाणु से होने वाली विमारी है जो नाक, मुँह आदि के माध्यम से बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह एवं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाती है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अधिकांश विश्व ने गूगल में तरह तरह की जान लेवा विमारियों का सामना किया है जैसे कि : एबोलिक लैम, काला बुखार आदि जिनको खत्म होने में एक दशक का समय भी लग चुका है,

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार-

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परंतु सन् 2000 के बाद से जब पूरा विश्व
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	यौंथा औद्योगिक औद्योगिक क्रांति की ओर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बढ़ रहा है तथा 'मेडिकल साइंस' में नए
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं ऐसे समय
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	में कोविड 19 नामक बيمारी का न
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सिर्फ उद्गम होना अपितु पूरे मानव संसार
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	को थमने के लिए मजबूर कर देना
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वास्तव में आश्चर्यचकित करने योग्य
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भारत देश के लिए कोविड 19 से
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	लड़ने के लिए अनेक तरह की चुनौतियाँ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	थी एवं भविष्य में भी रहेंगी परंतु
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कुछ मुख्य निम्नलिखित रही हैं :-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. <u>जनसंख्या</u> : भारत की जनसंख्या पूरे
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विश्व में दूसरे नंबर पर आती है एवं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आने वाले वर्षों में भारत चीन की
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पीछे होकर पहला पायदान प्राप्त कर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	लेगा। बढ़ती जनसंख्या के अपने नफा
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	नुकसान हैं परंतु कोविड 19 जैसी महा-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मारी से निपटने हेतु शासन की जिम्मे-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	दारी एवं मृत्यु दर को कम से कम
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रखते हुए हर वर्ष के लोभो का दायन
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रखना खुद में बहुत चुनौतीपूर्ण बन जाता

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	है। पिछले एक वर्ष में जिस प्रकार भारत सरकार ने ज्यादा आबादी होने के बावजूद भारत के नागरिकों की देखभाल की है वह काबिले तारीफ है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी → भारत में अनुभवी चिकित्सक एवं कर्मचारी जैसे नर्स, बार्डबॉय आदि की काफी कमी है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में तो यह अंतर और भी बढ़ जाता है। इसलिए सही समय में उचित समस्या को कोविड भयों तक पहुँचाना रुतब में एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। बहुत से चिकित्सक एवं कर्मचारी शुरुआती महीनों में ही कोविड के संपर्क में आए परंतु वह अपना कार्य अतिक्रम व्यं निष्ठा से करते रहे।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 लॉकडाउन एवं प्रतिबंध : हालांकि भारत ही नहीं पूरे विश्व ने लॉकडाउन को कोविड से निपटने के लिए प्रथम उपचार समझा परंतु जल्द ही उसके दुष्परिणाम आर्थिक मंदी एवं कम होते सरकारी खजाने से सरकारों पर दबाव के रूप में दिखने

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार -

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	लगा, भारत सरकार ने भी शुरुआत 3-4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	महीनों में कड़े प्रतिबंध लगाए एवं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	लोगों में सूचना पहुंचाई गई कि कैसे
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	न्यूनतम सैपेक तथा आवाजाही से
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	देश कोविड को फैलने से रोक सकता
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परंतु लॉकडाउन खुद में एक पूर्ण
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	औषधि नहीं है जोकि कोविड 19 को खत्म
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कर सकती थी, बड़े व्यवसायों तथा
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	उद्योगों को हो रहे धाते एवं भारत की
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अर्धव्यवस्था में आ रही गिरावट ने भारत
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सरकार को अंतराल ग्राह से चरणों में
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अनलॉकडाउन करने को मजबूर कर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	दिया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 सामाजिक कारण → भारत में विभिन्न
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वर्गों में सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पहले से ही बहुत अधिक रही हैं एवं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कोविड 19 के समय में यह असमानता
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	और बढ़ी हैं। मजदूर वर्ग एवं समाज
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	का नीचला तबका लॉकडाउन से बहुत
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्रभावित हुआ क्योंकि उनका रोज कमाने
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	खाने का जरिया अस्थायी काल के लिए
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बंद हो गया तथा दो पकत की रोटी के

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
उत्कला का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	लिये आटकने को राजबूर हो गया, हांलाकि
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सरकार ने मुफ्त राशन आदि की व्यवस्था
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	से लेकर यात्री ट्रेनें भी चलवाई परंतु
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	यह पर्याप्त नहीं था।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 पीपीई किट एवं मेडिकल उपकरणों की
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	व्यवस्था → जब भारत में कोविड 19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ने अपने पैर जमाए, भारत सरकार
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इतने बड़े स्तर पर पीपीई किट एवं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वैटिलेट आदि उपकरण के साथ तैयार
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	नहीं थी क्योंकि सामान्यतः भारत इन
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	उपकरणों को विदेश से आयात करता
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रहा है एवं संपूर्ण रूप से इन कार्यों
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	में 'आत्मनिर्भर' नहीं रह है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 <u>किसानिर्देशों का अंगीकार से पालन</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>तथा संचालन</u> : स्वच्छता आदि का
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	संपूर्ण पालन, जनता से अनिवार्य रूप
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	से करवाना एवं किसानिर्देशों को
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	लोभों के लिए ठग लक पहुँचाना भी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रुकने वाले के
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रुकने वाले के लिए जिसे स्थानीय प्रशासन
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ने बखूबी से कर दिया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इस तरह
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अनेक चुनौतियों से लड़ते हुए एक एक
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार-

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	तो भारत सकुशल कोविड 19 के रोकधाम में लगा रहा परंतु कोविड 19 भारत
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	के लिए अनेक तरह के अवसर भी प्रदान किया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अवसरों के साथ साथ कोविड 19 भारतीय समाज के लिए कुछ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	लाभ भी प्रदान किया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	स्वच्छता आदि के मामलों में जिसके लिए भारतीय
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सरकार पहले से ही 'स्वच्छ भारत' योजना' तथा अन्य प्रकार के स्वच्छता
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परवर्तित आदि घोषित करवाया था, वह कहीं न कहीं समाज में अच्छी आदतों
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	के रूप में खुदबखुद बस गई जैसे हाथ आदि हर 10-20 मिनट में धोना
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	तथा आस पास के वातावरण को स्वच्छ रखना, सैनिटाइजर आदि का हर छोड़ी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	छोड़ी जगह में इस्तेमाल करना यह सब कुछ कोविड 19 से बचाव हेतु लोग स्वयं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	से मानने लगे एवं आने वाले समय में यह समाज के जीवनशैली का हिस्सा
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भी बन जाएगा।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अवसरों की बात की जाए तो भारत के लिए 'कोविड 19'

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	न सिर्फ वर्तमान में परंतु आने वाले
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	समय में ही एक अंतरराष्ट्रीय पहचान
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	का प्राप्त करने में योगदान दे सकता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भारत हाल में विश्वभर में अपनी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'वैक्सीन डिलीवरी', के नमूने पेश
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कर रहा है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भारत के 'सीरम इंस्टीट्यूट'
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	एवं 'भारत बायोटेक' विश्वभर में सबसे
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	तथा सस्ती वैक्सीन बनाने के मामले
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	में अपना डंका बजा रहे हैं।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अभी शुरु-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आती दौर में भारत बांग्लादेश, मालदीव,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पश्चिमी एशिया के देशों में मुफ्त में
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कोविड 19 की वैक्सीन मानवता हेतु
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भेज रहा है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आने वाले समय में भारत
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इसका निर्यात भी कर सकेगा जोकि भारत
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	साबित होगा।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अन्य अवसरों में कोविड
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19 भारत को अपने स्वास्थ्य बजट में
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सटीक रूप से एक निश्चित मुद्रा का
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आवंटन तथा आने वाले समय में किसी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भी विकराल परिस्थिति से निपटने योग्य

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आधारिक संरचना का विकास और बेहतर ढंग से करने हेतु भौतिक प्रदान करता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ग्रामीण क्षेत्रों में भी 'रुमजीनरेगा' जैसी योजनाओं का बेहतर तरीके से लागू करना भी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कारगर साबित होगा।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	शिक्षा के क्षेत्र में घर से बैठकर पढ़ाई करने के लिए भी जो सामान्य उपकरण जैसे मोबाइल, इंटरनेट आदि की जरूरत होती है वह भी भारत के पिछड़े इलाकों में उपलब्ध नहीं है, इस कारणवश कोविड 19 जैसी महामारी का सीधा प्रभाव भारत के अविद्य पर भी है। शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बीच शिक्षा के स्तर में जो अंतर है खूब जिसे कोविड 19 ने और भी बढ़ा दिया है उसे कम करने हेतु भारत सरकार को दृढ़ता से दूर करना होगा।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कोविड 19 पूर्ण विश्व को आपसी बंधन के शक्यता की मदद करने तथा मुश्किल

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार-

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परिस्थितियों में भी हार न मानने के उत्तम गुण भी परीक्षार्थ से प्रदान करता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हालांकि विश्व स्तर में कोविड 19 एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जिसका उदाहरण हम जापान के राष्ट्रपति द्वारा स्वास्थ्य का हवाला देकर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इस्तीफा देना हो या फिर अमेरिका में राजनीतिक परिवर्तन एवं आने वाले
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	समय में कोविड 19 से होनी वाली घाति से निपटने के लिए हर देश
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1) संरक्षणवाद की नीति को अपनाना क्योंकि हर राष्ट्र को कोविड 19 से
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	उत्पन्न विकट परिस्थितियों जैसे बेरोजगारी से लड़ना होगा परंतु दीर्घकाल में देशों के बीच परस्पर व्यवसाय संबंध आदि के बढ़ने के अनुमान हैं।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	में कोविड 19 से लड़ने हेतु जो आगोदारी सरकार, स्वास्थ्य कर्मचारी, आमजन, पुलिस विभाग, जनसेवा विभाग आदि
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ने दिखाई है वह काबिले तारीफ हैं, कोविड 19 से लड़ते हुए कई अफसरों तथा कर्मचारियों ने स्वयं की जान तक
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मौका दी जो वास्तव में दिखलाता है,

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कि सिर्फ किलाबी ही नहीं अपितु जमीनी
		स्तर में भी भारत के जनजन में
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'राष्ट्रवाद' कूट कूट कर धरा हुआ है।
		इसके साथ साथ 'एकता में शक्ति'
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	का नमूना बीते वर्ष मणिपुर में कुछ
		बिहार के मजदूरों को ले जा रही कोविड
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	स्पेशल बस के गड़बड़ हो जाने पर पैदल
		चलने को मजबूर हुए मजदूरों को जूते
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आदि प्रदान करके दिखाई गई थी।
		इस
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सबके बावजूद हमें कोविड 19 से सबक
		लेकर दीक्षाविधि के लिए भी तैयारी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कर लेनी चाहिए, क्योंकि शक तो कोविड
		अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है एवं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आने वाले समय में भी यह वापसी
		कर सकता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अंत में कोविड 19 द्वारा
		भारत के विभिन्न संस्थान जैसे डी.आर.डी.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ओ, इ.सरो आदि भारत सरकार के
		मंत्रालयों के बीच रखे गया सामंजस्य
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भी दिखाया जिसके चलते नवीन
		उपकरण जैसे 'यूवी सैनीटाइजर' आदि
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बनकर तैयार हो सके, सही ही कहा
		गया है - 'हर चीज के दो पहलू होते हैं'

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
उत्कला नं. प्रवेश द्वार-

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	(2) अनुशासन सभ्य समाज की दुरी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		अनुशासन प्राचीन काल की गुरुकुल परंपरा से भारतीय संस्कृति का अंग
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		रह है। स्व सभ्य समाज की नींव रखने में अनुशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		भारतीयों मध्यकालीन जैसे महाभारत, रामायण भी गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन किया गया है। उदाहरण: द्रोणाचार्य एवं अर्जुन तथा द्रोणाचार्य एवं कलवरीक। गुरु शिक्षा की अनुशासित परंपरा के चलते कलवरीक ने स्वयं का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य के लिए दान कर दिया था।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		सभ्य समाज में अनुशासन, व्यवहार, इज्जत, सेवा, सभ्यता आदि अत्यंत महत्वपूर्ण है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		अनुशासन के अनेक आयाम हम सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, धार्मिक, शैक्षिक स्तरों में देख सकते हैं एवं इनका महत्व भी आंक सकते

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	है। इनमें से निम्नलिखित हैं :-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>आर्थिक</u> → बिना अनुशासन के देश का आर्थिक सुधार संभव ही नहीं है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	उदाहरण → आज के समृद्धिवादी देश जैसे जापान एवं जर्मनी छोड़ी की नोक पर अपना कार्य प्रारंभ एवं समाप्त करते हैं, वहाँ के लोगों की धृति भी इसी प्रकार से विश्व भर में है तथा अन्य देश कहीं न कहीं इन देशों के स्केम अर्थों से प्रभावित होते हैं तथा निवेश में ऐसे देशों को प्रथम स्थान देते हैं तथा व्यापार में भी इन देशों को आगे रखते हैं।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>राजनीतिक</u> → स्कैंदीनेवियन देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि में संभवतः बहुत अधिक प्रभावी हैं तथा ये देश सामाजिक सुरक्षाओं आदि के मापदंडों में सबसे पीछे आते हैं एवं यहाँ के राजनेता भी भाषा, आचरण आदि का ख्याल रखते हुए राजनीति में आगे लेते हैं जो कि पूरे समाज से अंदर तक संलग्न हैं।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार-

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	शैक्षिक धार्मिक, पारिवारिक स्वंशो में पूरी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बच्चों को दौरे से ही अटके, मूल्यों की
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जानकारी दी जाती है एवं अटका
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	व्यवहार दिखाने की सीख दी जाती है
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हॉलाकि जिस समाज में अनुशासन की
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कमी होती वहाँ सभ्यता, आदि से भी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परदेज किया जाने लगता है एवं वह
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	देश कई शब्दों में पिछड़ जाते हैं।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	उदाहरण → पाकिस्तान : धार्मिक
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अनुशासन की कमी के चलते यहाँ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	शेवभाव बहुत अधिक है तथा हर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जमीनी स्तर के आपदों में पाकिस्तान
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आज पीछे है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आज जितने भी देश
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सभ्यता हैं जैसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कनाडा आदि वहाँ एक गुण जो प्रत्यक्ष
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ही दिख जा रहा वह है : अनुशासन एवं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सभ्यता।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भारत में अंग्रेजों का राज
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	खत्म होने के बाद सामाजिक परिस्थितियाँ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्रतिकूल हो गई थी इसलिए आज भारत
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विश्व शक्ति बनने से थोड़ा दूर है परंतु
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अनुशासन तथा सभ्यता हमारी विरासत
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	है एवं उन्हें सहसास करते हुए हम
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अपने पथ पर और मंतव्यमान हैं।

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
उत्कला का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	कौटिल्य (3) क्या लोकपाल सुप्रीम को खत्म करने में सफल है ?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		लोकपाल एक कानूनी संस्था है जोकि अपनी शक्तों को लोकपाल अधिनियम 2013 से ग्रहण करता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		लोकपाल का ऑफिस केंद्र सरकार में ही सुप्रीम को गतिविधियों को उजागर करना है वहीं लोकपाल राज्य सरकार के अंदर यह काम करता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		लोकपाल अधिनियम का पास होना से एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि 2013 से पूर्व तरह तरह के सुप्रीम के मुद्दे जैसे 24 घण्टा, कोलकोका हॉटल आदि सामने आते थे इसलिए यह उस समय के दिमाग से एक प्रशंसनीय कदम था।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		अपितु लोकपाल की शक्तों पूरी तरह से सुप्रीम को खत्म में विफल साबित हुई है जिसके प्रमुखतः संभावित कारण हैं -
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
उत्कलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 लोकपाल की नियुक्ति → लोकपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के जज एवं मृद मंत्री आदि शामिल होते हैं, यह लोकपाल के कार्य-प्रणाली में बाधा डालता है क्योंकि वह शूलकर कार्य नहीं कर पाता।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 स्वतंत्रता की कमी → लोकपाल का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट जैसे स्वतंत्र नहीं है तथा इनकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप संभव रहता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 निर्देश संबंधी शक्तियाँ → लोकपाल के पास शूट की जांच संजोसी नहीं होती एवं यह सीबीआई पर जांच आदि कार्यों के लिए निर्दिष्ट रहती है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 दण्ड संबंधी शक्तियाँ : लोकपाल जांच में सहयोग के लिए आरोपित को बुला तो सकती है परंतु आदेश न मानने की स्थिति में दण्ड नहीं सुना सकती।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 अन्य संस्थाओं से तालमेल की कमी : सीबीआई एवं सीवीसी आदि से

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	लोकपाल को के गौच भुदुदे खलख उलखन
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	खुवं समय की खखी की ओरखले जाते
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हैं।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इन सभी कारणों से लोकपाल की
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	संस्था उतने बेखर हंम से अपना कार्य
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	नही कर पाती जिसकी लिए यह खखी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मई थी परंतु इयका मतलब यह खिलकुल
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	नही है कि लोकपाल अख्यचार रोकने
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	में खिल है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	समय समय पर लोक-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पाल अपनी सक्रिय कूमिका निभाकर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	खौपेकारी आयि की कार्यवाही करता
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रखता है खुवं अनेक प्रकारों के अख्य-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	चार संखथा केसों को उजागर करता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	तो यह कथ जा सकता
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	है कि खिखले 7 साल में लोकपाल की
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	संस्था कई निणायिक कदम उठा
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	चुकी है खुवं जरूरत तो खिखे इयकी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कि कैसे लोकपाल की खतंत्रता,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	निरपेक्षाता, अन्य संखथाओं के साथ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	खिलमेल तथा खखितियों में खदीतरी की
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	खिससे लोकपाल अख्यचार के खखितियों
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	को कई से खवर्तन करे। नियमों